

दिल्ली राजपत्र Delhi Gazette

असाधारण

EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 59]

दिल्ली, सोमवार, मई 11, 2015/वैशाख 21, 1937

[र.रा.रा.क्षे.दि. सं. 22

No. 59]

DELHI, MONDAY, MAY 11, 2015/VAISAKHA 21, 1937

[N.C.T.D. No. 22

भाग—IV

PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार

GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

पर्यावरण एवं वन विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 11 मई, 2015

फा.सं. आर. 1465/टी.ओ.(एस)/टी.सी. फेलिंग/2014-15/885-93.—जबकि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र सरकार जनहित में ऐसा करना आवश्यक समझती है।

अतः अब दिल्ली वृक्ष संरक्षण अधिनियम, 1994 (1994 का दिल्ली अधिनियम 11) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, डी.एम.आर.सी. द्वारा एम.आर.टी.एस परियोजना फेस-3, जसोला विहार में कालिन्दी कुंज डिपो के लिए एलिवेटेड स्टैब्लिंग लाइन, नई दिल्ली के निर्माण हेतु नीचे दिए गए विवरण के अनुसार 4.26 हेक्टेयर (लगभग) क्षेत्रफल से उक्त अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (3) के उपबंधों से इसके द्वारा छूट प्रदान करती है।

क्रम सं.	स्थान	क्षेत्र का विस्तार (हेक्ट.)	हटाए जाने वाले वृक्षों की संख्या	अपेक्षित प्रतिपूरक वृक्षारोपण (वृक्षों की संख्या)
1.	डी.एम.आर.सी. द्वारा एम.आर.टी.एस. परियोजना फेस-3, जसोला विहार में कालिन्दी कुंज डिपो के लिए एलिवेटेड स्टैब्लिंग लाइन, नई दिल्ली	4.26 (लगभग)	115	1500
		कुल योग	115	1500

यह छूट निम्नलिखित शर्तों के अधीन है।

- (क) आवेदक को पांच वर्ष की अवधि के लिए पौधों के संपूर्ण विकास एवं रखरखाव हेतु निम्नानुसार 48,30,000/- रुपये (अड़तालीस लाख तीस हजार रुपये मात्र) की राशि अग्रिम रूप में जमा करवानी होगी।

परियोजना संख्या	लगाए जाने वाले पौधों की संख्या	अन्य प्रशासनिक व्ययों तथा आकस्मिक व्यय सहित कुल राशि	वन प्रभाग में जमा कराई जाए
1.	1500	रु. 48,30,000/-	उप-वन संरक्षक (दक्षिणी)/वन अधिकारी

- (ख) वन विभाग द्वारा 1500 पेड़ों की डी.एम.आर.सी. द्वारा दी गई भूमि पर जो उप-वन संरक्षक (पूर्वी) के अंतर्गत शास्त्री पार्क के नजदीक क्षतिपूर्क वृक्षोरपण किया जाएगा तथा उनका पांच वर्षों तक रखरखाव किया जाएगा तथा सफलतापूर्वक स्थापना के बाद जांच की जाएगी।
- (ग) उप-वन संरक्षक के परामर्श से जलाऊ लकड़ी वाले वृक्षों की प्रजातियों की जलाऊ लकड़ी (यदि है) को काटे जाने के पश्चात प्राप्त जलाऊ लकड़ी दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा दिल्ली नगर निगम के संबंधित कर्मचारियों को सार्वजनिक शवदाहों में प्रयोग हेतु सौंपी जाए, यदि उचित हो।
- (घ) वृक्ष काटे जाने के स्थल से लकड़ी ले जाने से पूर्व उक्त लकड़ियों की डुलाई के लिए वृक्ष अधिकारी (दक्षिणी) से डुलाई अनुमति प्राप्त करनी होगी।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के

उपराज्यपाल के आदेश से तथा उनके नाम पर,

संजीव कुमार सचिव (पर्यावरण वन एवं वन्य जीव)

DEPARTMENT OF ENVIRONMENT, FORESTS AND WILDLIFE

NOTIFICATION

Delhi, the 11th May, 2015

No. F. R. 1465/TO(S)/TC.Felling/14-15/885-93.—Whereas the Government of National Capital Territory of Delhi considers it necessary to do so in the public interest.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 29 of the Delhi Preservation of Trees Act, 1994 (Delhi Act, 11 of 1994), the Government of National Capital Territory of Delhi hereby exempts an area of total 4.26 ha. (approx.) as detailed below for construction of elevated stabling line for Kalindi Kunj Depot at Jasola Vihar of Phase-III of MRTS, New Delhi by Delhi Metro Rail Corporation (DMRC), from the provision of Sub-section (3) of Section 9 of the said Act.

Sl. No.	Location	Extent of Area (ha.)	No. of trees required to be Removed	Compensatory plantation required (no. of trees)
1.	Elevated stabling line for Kalindi Kunj Depot at Jasola Vihar of Phase-III of MRTS, Nw Delhi.	4.26 (approx.)	115	1500
	Total		115	1500

The exemption is Subject of fulfillment of the following conditions :

- a) The applicant shall make an advance deposit of an amount of Rs. 48,30,000/- (Rupees Fourty Eight Lakh Thirty Thousand Only) towards security for creation and maintenance of compensatory plantation for a period of 5 (five) years as follows :

Project No.	No. of Sapling to be Planted (No. of trees)	Total Amount including other Administrative expenses and contingency charges (in Rs.)	To be Deposited with Forest Division
1.	1500	48,30,000/-	DCF (South)/Tree Officer

- b) The compensatory plantation will be raised and maintained for 5 (five) years i.e. 1500 no. of trees compensatory plantation will be done by the Forest Department at the land given by DMRC near Shastri Park Under DCF (N) and monitor it till its successful establishment.
- c) The firewood (if any) obtained on removal of firewood species of trees shall be handed over by the DMRC to the officials concerned of MCD for its use on public crematoria in Delhi in consultation with the territorial DCF, if applicable.
- d) Before shifting of wood if any, from site of removal of trees, transportation permission for transportation of the said wood shall be obtained from Tree Officer (South).

By Order and in the Name of the
Lt. Governor of the
National Capital Territory of Delhi,
SANJIV KUMAR, Secy. (Env. & Forests)